

उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग-4
संख्या- /XX-4/2018-1(32)/2018
देहरादून : दिनांक 13 अप्रैल, 2018

कार्यालय आदेश

'उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम', 2017 की धारा-16(1) में वर्णित व्यवस्था एवं कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-80/XXX(2)/30(13)/2017, दिनांक 28.03.2018 के आलोक में वरिष्ठ कारागार अधीक्षक के स्थानान्तरण हेतु अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में स्थानान्तरण समिति का गठन कर निम्नानुसार सदस्य नामित किये जाते हैं :-

1. श्री उदयवीर सिंह यादव, अपर सचिव, गृह/कारागार, उत्तराखण्ड शासन
2. श्री युगल किशोर पन्त, अपर सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव

संख्या- ~~777~~ /XX-4/2018-1(32)/2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिरीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर सचिव, गृह/कारागार, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड, शासन।
6. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(जीवन सिंह)
उप सचिव